



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

निगमित कार्यालय

कार्मिक विभाग

चौथा तल, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

सं. 314-02/2018-कार्मिक-1(पार्ट)

दिनांक: 11. 01 , 2019

सेवाअवधि स्थानांतरण आदेश / **TENURE TRANSFER ORDER**


Subject: - Transfer of Officer / Executive of DGM Level of Telecom Operation Stream.

The transfer of the following Officer /Executive is hereby ordered with immediate effect and until further orders:

Srl. No	Staff No.	HRMS No	Name of the officer (S/Shri)	Present posting	Posting on transfer
01	21223	200204006	Om Prakash Jangir	J&K	RAJ

2. The officer/executive has to be relieved only after completion of prescribed tenure period.
3. Posting of the officer/executive to the sensitive/non-sensitive post may be decided by the concerned Circle as per prescribed norms circulated by DoT and Vigilance Branch of BSNL Corporate Office from time to time.
4. Charge reports may be furnished to all concerned through CGM. Relieving and joining entries should also be made in **HRMS/ERP/Service Book**.


This issues with the approval of Competent Authority.


(O. N. Tiwary) 11/01/19

Deputy General Manager (Pers. Admin-I)

To: -

1. PPS/PS to CMD/All Directors of BSNL Board/ CVO BSNL Corporate Office
1. CGM J&K Telecom Circle - It is requested to arrange DGM by look after arrangement from available AGMs/DE in Circle/SSA.
2. CGM RAJ Telecom
3. GM (Pers.)/CLO (SCT) BSNL CO.
4. CS to Director (HR), BSNL C.O.
5. Officer (s) concerned (Through CGM).
6. DM (OL) for Hindi version.
7. CS to Director [HR] BSNL.
8. Order Bundle/Intranet.


(Satish Kumar) 11/11/2019

Assistant General Manager (Pers.I)



भारत संचार निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

निगमित कार्यालय

कार्मिक विभाग

चौथा तल, भारत संचार भवन, जनपथ, नई दिल्ली - 110 001

सं. 314-02/2018-कार्मिक-1(पार्ट)

दिनांक: 11th Jan., 2019

सेवाअवधि स्थानांतरण आदेश / TENURE TRANSFER ORDER

Subject: - Transfer of Officer / Executive of DGM Level of Telecom Operation Stream.

The transfer of the following Officer /Executive is hereby ordered with immediate effect and until further orders:

Srl. No	Staff No.	HRMS No	Name of the officer (S/Shri)	Present posting	Posting on transfer
01	37806	199415775	Shanti Niketan Lakra	NE-II	CHGR

2. The officer/executive has to be relieved only after completion of prescribed tenure period.
3. Posting of the officer/executive to the sensitive/non-sensitive post may be decided by the concerned Circle as per prescribed norms circulated by DoT and Vigilance Branch of BSNL Corporate Office from time to time.
4. Charge reports may be furnished to all concerned through CGM. Relieving and joining entries should also be made in **HRMS/ERP/Service Book**.

This issues with the approval of Competent Authority.

(O. N. Tiwary)

Deputy General Manager (Pers. Admin-I)

To: -

2. PPS/PS to CMD/All Directors of BSNL Board/ CVO BSNL Corporate Office
3. CGM NE-II Telecom Circle - It is requested to arrange DGM by look after arrangement from available AGMs/DE in Circle/SSA.
4. CGM CHGR Telecom
5. GM (Pers.)/CLO (SCT) BSNL CO.
6. CS to Director (HR), BSNL C.O.
7. Officer (s) concerned (Through CGM).
8. DM (OL) for Hindi version.
9. CS to Director [HR] BSNL.
10. Order Bundle/Intranet.

(Satish Kumar)

Assistant General Manager (Pers.I)